

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12072024-255370
SG-DL-E-12072024-255370असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2024/आषाढ 19, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 95
No. 177]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2024/ASHADHA 19, 1946	[N. C. T. D. No. 95

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIप्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 8 जुलाई, 2024

फा. सं. 19/78/एआर/प्रशा./2022/1921—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं० फा० 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, समूह 'ग' पद हेतु सेवाएं विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व परामर्श से, एतद् द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'स्टाफ कार चालक, सामान्य ग्रेड' के पद हेतु भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को 'प्रशासनिक सुधार विभाग, स्टाफ कार चालक, सामान्य ग्रेड, भर्ती नियमावली, 2024' कहा जाए।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :— वह व्यक्ति,
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
 (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
 शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **षिथिल करने की शक्ति** :— जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा, व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) के पद हेतु

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)
2.	पदों की संख्या	:	01* (2023) * (परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर)
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ग'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों तथा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) टीप :— आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी। * यदि पदों को अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के द्वारा भरा जाना है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य :— (i) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। (ii) मोटर कार हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना; (iii) मोटर तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए);

		<p>(iv) मोटर कार चालक का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो;</p> <p>वांछनीय:-</p> <p>होम गार्ड/नागरिक स्वयंसेवकों के रूप में 3 वर्ष की सेवा।</p> <p>टीप 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>टीप 2 : यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	: सीधी भर्ती अथवा पुनःरोजगार पर लगे हुए उम्मीदवारों के लिए 02 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: प्रतिनियुक्ति/समावेशन के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बल कार्मिक हेतु : प्रतिनियुक्ति/पुनःरोजगार
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	<p>प्रतिनियुक्ति/समावेशन :</p> <p>मोटर कार चलाने की सक्षमता का आंकलन करने के लिए वाहन चालक परीक्षा के आधार पर मोटर कार हेतु वैध ड्राइविंग रखने वाले राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 के रुपये 18000-56900/-में नियमित डिस्पैच राइडर (समूह-ग) तथा समूह-ग कर्मचारियों में से जिसके न होने पर कॉलम संख्या 7 में यथा उल्लिखित आवश्यक योग्यता को पूर्ण करने वाले उन अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 के रुपये 18000-56900/- में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर का पद धारण करने वाले कर्मचारियों में से अथवा नियमित समूह-ग कर्मचारियों में से।</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिक हेतु प्रतिनियुक्ति/पुनः रोजगार :</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने अथवा रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने हैं तथा उनके पास अपेक्षित अनुभव तथा निर्धारित योग्यता है; तो वे भी विचारणीय होंगे। ऐसे व्यक्तियों को उस तिथि तक प्रतिनियुक्ति अवधि पर रखा जाएगा जब तक कि वे सशस्त्र बल से कार्यमुक्त होने के लिए</p>

		नियत है; तत्पश्चात् वे पुनःरोजगार पर बने रहेंगे। टीप 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद की प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है; यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56)वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	: पदोन्नति के विचारार्थ समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति 1. प्रधान सचिव/सचिव (श्रम) – अध्यक्ष 2. विभागाध्यक्ष – सदस्य 3. उप-सचिव (सेवाएं) – सदस्य टीप :- यदि विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आशीष कुमार, उप-सचिव (प्रशा0)

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 8th July, 2024

F. No. 19/78/AR/Admn./2022/1921—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs, notification No. 27/59-Him (i) dated 13th July 1959 the Lt. Governor of the National capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Services Department, Government of National Capital Territory of Delhi for Group C Posts, is pleased to make recruitment rules for the post of 'Staff Car Driver, Ordinary grade' in the Administrative Reforms Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- Short title and commencement:-** (i) These rules may be called 'The Administrative Reforms Department ,Staff Car Driver (Ordinary Grade) Recruitment Rules 2024'.
(ii) They shall come into force from the post of their publication in the Delhi Gazette.
- Number of Posts, classification and Level in the pay matrix:-** The number of the said post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, Age limit and Qualification, etc:-** The method of recruitment of the said post, age limit, qualifications and other matter concerned therewith ,shall be as specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification:-** No person,

a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:-** Where the Government of National Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, Schedules Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time in this regard.**SCHEDULE****For the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade)**

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay Level in the pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
1	2	3	4	5	6	7	8
Staff Car Driver (Ordinary Grade)	01* (2023) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group-'C'	Level-2 (Rs. 19900-63200/-) of the Pay Matrix,	Not Applicable	Between 18-25* years (Relaxable for government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.	Essential: (i) Pass in 10 th standard (ii) Possession of a valid driving licence for motor cars; (iii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (v) Experience of driving a motor car for at least three years; Desirable: Three years' service as Home Guard/Civil Volunteers. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the	Not Applicable

						discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13
Two years for direct recruits or re-employed	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment	Deputation/absorption:- From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in Level-1 of Pay Matrix Rs.18000-56900/- in the State Government/UT who possesses valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in Level 1 of Pay Matrix Rs.18000-56900/- in other Ministries who fulfil the necessary qualifications as mentioned in Column 7. Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel:- The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter may be	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of: (i) Principal Secretary/ Secretary (Labour) - Chairperson (ii) Head of Department - Member (iii) Dy. Secretary (Services) - Member Note: Senior most member of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the DPC/DCC happens to be junior to another member of DPC.	Not Applicable

		<p>continued on re-employment.</p> <p>Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--

By Order and in the Name of Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

ASHISH KUMAR, Dy. Secy. (Admn.)